



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 19]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 19, 2012/पौष 29, 1933

No. 19]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 19, 2012/PAUSA 29, 1933

संस्कृति मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2012

सा.का.नि 33(अ).—भारत सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त न्यास, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के घोषणा-पत्र के खंड-9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा पूर्व में जारी की गई अपनी दिनांक 3 अक्टूबर, 2002 की अधिसूचना सं 16-15/95-यू.एस. (अकादमी) (दिनांक 20 मई, 2009 की अधिसूचना सं 16-17/2008-अकादमी के तहत यथा संशोधित) में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य-सचिव पद के लिए भर्ती-प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले निर्धारित नियमों में निम्नलिखित संशोधन करती है -

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (सदस्य-सचिव) के भर्ती नियम, 2002 कहे जाने वाले उक्त नियम संबंधी सलग्न अनुसूची के कॉलम सं 5, 7 और 12 में विद्यमान प्रविष्टियां निम्नानुसार प्रतिस्थापित की जाएंगी -

क्र. सं.	विद्यमान प्रविष्टि	संशोधित प्रविष्टि
(5) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	60 वर्ष से अधिक नहीं	65 वर्ष से अधिक नहीं
(7) सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं	(i) भारतीय भाषाओं/पुरातत्व/मानव विज्ञान/कला इतिहास/नृजाति-विज्ञान/मानविकी/सूचना प्रौद्योगिकी/मानव विज्ञान, विषय में डाक्टरेट डिग्री। (ii) निम्नलिखित क्षेत्रों में 15 वर्ष का अनुभव : (क) किसी विश्व विद्यालय में या उच्च शिक्षा के लिए पूर्ण रूप से समर्पित किसी सु-स्थापित संस्थान में अध्यापन और शोध।	(i) भारतीय भाषाओं/पुरातत्व/मानव विज्ञान/कला इतिहास/नृजाति-विज्ञान/मानविकी/सूचना प्रौद्योगिकी/समाज विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर उपाधि। (ii) निम्नलिखित क्षेत्रों में 15 वर्ष का अनुभव (क) किसी विश्वविद्यालय में अध्यापन और शोध या उच्च शिक्षा के लिए समर्पित किसी सु-स्थापित संस्थान में अध्यापन और शोध और/अथवा

<p>(12) यदि विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन किया गया है तो इसकी संरचना क्या है।</p>	<p>(ख) प्रसिद्ध जर्नलों में प्रकाशित शोध-पत्र।</p> <p>(ग) विश्वविद्यालय/विभाग या उच्च शिक्षण के राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के प्रमुख के रूप में प्रशासनिक अनुभव।</p> <p>(घ) उच्च श्रेणी के अंतर-विषयक शैक्षिक कार्य में मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता।</p> <p><b>टिप्पणी:</b> अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्यताएं, अनुभव और आयु सीमा में शिथिलता दी जा सकती है।</p> <p>चयन, केंद्र सरकार में लागू अनुदेशों/आदेशों के अनुसार गठित की जाने वाली खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।</p>	<p>(ख) विश्वविद्यालय/उच्च शिक्षण के राष्ट्रीय अथवा अंतर्राष्ट्रीय संस्थान सहित, किसी बड़े संगठन के विभागाध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक अनुभव</p> <p><b>टिप्पणी.1:</b> डाक्टरेट डिग्री, विख्यात जर्नलों में प्रकाशित शोध-पत्र और उच्च श्रेणी के अंतर-विषयक शैक्षिक कार्य में मार्गदर्शन और नेतृत्व प्रदान करने की क्षमता, वांछनीय होंगी।</p> <p><b>टिप्पणी.2:</b> अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर योग्यताएं, अनुभव और आयु सीमा में शिथिलता दी जा सकती है।</p> <p>चयन, केंद्र सरकार में लागू अनुदेशों/आदेशों के अनुसार गठित की जाने वाली खोज-सह-चयन समिति की सिफारिशों के आधार पर किया जाएगा।</p> <p><b>टिप्पणी</b> जारी विज्ञापन के माध्यम से आवेदन मागे जाएंगे और शोध-सह-चयन समिति, प्राप्त हुए आवेदनों और सदस्यों द्वारा खोज प्रक्रिया में सुझाए गए नामों पर भी विचार करेगी। जब इस खोज-सह-चयन समिति की संयुक्त प्रक्रिया से उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिलता तो खोज-सह-चयन समिति अपने विवेक से केवल खोज द्वारा अथवा पुनः विज्ञापन देकर उन रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए नए शिरे से आवेदन आमंत्रित कर सकती है।</p>
--	--	--

यह तत्काल समय से प्रभावी माना जाएगा।

[फा. स 16-19/2010-अकादमी]

दीपाकर दत्ता, अवर सचिव

## MINISTRY OF CULTURE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 2012

**G.S.R. 33(E).**— In exercise of the powers conferred by clause 9 of the deed of declaration of the Indira Gandhi National Centre for the Arts (IGNCA), an autonomous Trust set up by the Government of India, the Central Government hereby makes the following amendments to its earlier Notification No 16-15/95-US(Akademies), dated 3<sup>rd</sup> October, 2002 (as amended vide Notification No 16-17/2008-Akademies, dated 20<sup>th</sup> May, 2009), prescribing Rules for regulating the method of recruitment to the post of Member-Secretary, Indira Gandhi National Centre for the Arts -

Under Col Nos 5, 7 and 12 of the Schedule annexed to the said Rules, called the Indira Gandhi National Centre for the Arts (Member-Secretary) Recruitment Rules, 2002, the existing entries will be substituted as follows -

Col. No	Existing Entry	Amended Entry
(5) Age Limit for Direct Recruits	Not exceeding 60 years	Not exceeding 65 years
(7) Educational and other qualifications required for direct recruits	<p>(i) Doctorate Degree in the discipline of Indian Languages/ Archaeology/ Anthropology/ Art history/ Ethnology/ Humanities/ Information Technology/ Human Sciences</p> <p>(ii) 15 years experience in the following areas</p> <p>(a) Teaching and research in a University or any well established Institution devoted to higher learning,</p> <p>(b) Published research paper in reputed Journals,</p> <p>(c) Administrative experience as Head of a University/ Department or of a National / International Institute of advanced learning</p> <p>(d) Capacity to guide and provide leadership for interdisciplinary academic work of a high order</p> <p><u>Note</u> Qualifications, experience and age are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified</p>	<p>(i) <b>Master</b> Degree in the discipline of Indian Languages/ Archaeology/ Anthropology/ Art history/ Ethnology/ Humanities/ Information Technology/ <b>Social Sciences</b></p> <p>(ii) 15 years experience in the following areas</p> <p>(a) Teaching and research in a University or any well established Institution devoted to higher learning, <b>and/ or</b></p> <p>(b) Administrative experience as Head of a Department of <b>any large Organization, including</b> a University/ National <b>or</b> International Institute of advanced learning</p> <p><u>Note.1</u> A Doctorate degree, published research paper in reputed journals and capacity to guide and provide leadership for interdisciplinary academic work of a high order, <b>will be desirable.</b></p> <p><u>Note 2</u> Qualifications, experience and age are relaxable at the discretion of the competent authority in case of candidates otherwise well qualified</p>

<p>(12)</p> <p>If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition</p>	<p>The selection will be based on the recommendations of the Search-cum-Selection Committee to be constituted in terms of the instructions/ orders of the Central Government in force</p>	<p>The selection will be based on the recommendations of the Search-cum-Selection Committee to be constituted in terms of the instructions/ orders of the Central Government in force.</p> <p><b>Note:</b> - Advertisement will be issued inviting applications and Search-cum-Selection Committee will consider the applications received as also the names which may be suggested by Members in search mode. Whenever no suitable candidates are found through this combined method of search and selection, the Search-cum-Selection Committee may, in its discretion, decide to proceed further only in the search mode or to re-advertise the vacancy for a de-novo process of applications.</p>

This shall come into effect immediately.

[F. No 16-19/2010-Akademies]  
DIPANKAR DUTTA, Under Secy.